

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरात्र कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited  
(AMiniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी,जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

पत्र क0 एनसीएल/ज0स0वि0/प्रेसवि0/2017-18/113

दिनांक- 08/06/2017

### प्रेस विज्ञप्ति

#### एनसीएल दुधिचुआ की संगिनी महिला समिति ने आयोजित की सिलाई प्रतियोगिता

#### जरूरतमंद प्रशिक्षणार्थी को दी सिलाई मशीन

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के दुधिचुआ क्षेत्र की संगिनी महिला समिति ने मंगलवार को सिलाई-कढ़ाई सीख रही युवतियों के प्रोत्साहन हेतु सिलाई प्रतियोगिता आयोजित की। समिति ने जरूरतमंद प्रशिक्षणार्थी सुश्री गंगा साकेत को सिलाई मशीन भी दी। प्रतियोगिता का आयोजन दुधिचुआ क्षेत्र के आवासीय परिसर स्थित सूर्य किरण भवन में किया गया, जिसमें संगिनी महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती पंकी प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थीं।

दुधिचुआ क्षेत्र अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के अंतर्गत सूर्य किरण भवन में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करता है, जिसमें आसपास की जरूरतमंद युवतियों के कौशल विकास हेतु उन्हें सिलाई-कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस केंद्र में संगिनी महिला समिति की सदस्याओं ने युवतियों के प्रोत्साहन के लिए सिलाई प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में सभी युवतियों ने बड़े चाव से भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक नमूने बनाए। प्रतियोगिता में सुश्री रेणू साकेत पहले, सुश्री दिव्या रजक दूसरे और सुश्री शबीना तीसरे स्थान पर रहीं। तीनों विजेताओं को संगिनी महिला समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया।

संगिनी महिला समिति की सदस्याओं ने युवतियों को पूरे मनोयोग से सिलाई-कढ़ाई सीखने के प्रति प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीखे गुरों का उपयोग कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए भी युवतियों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही, उन्होंने सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान और बाद में सभी युवतियों को संगिनी महिला समिति की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया।

कार्यक्रम में संगिनी महिला समिति की श्रीमती कंचन बाला सिंह, श्रीमती माया सिन्हा, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, श्रीमती सविता अग्रवाल एवं श्रीमती तरन्नुम खान और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षिका श्रीमती रीना वर्मा उपस्थित थीं।

गौरतलब है कि संगिनी महिला समिति दुधिचुआ क्षेत्र के आस-पास के जरूरतमंद लोगों के लिए कल्याणकारी करती रहती है। समिति ने अप्रैल में शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बैगा बस्ती में स्कूल बैग और पठन-पाठन सामग्री का वितरण किया। समिति ने अप्रैल में ही दुधिचुआ क्षेत्र आवासीय कॉलोनी सेक्टर-ए के प्रवेश द्वार पर तपती गर्मी में राहगीरों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्याऊ लगाया। साथ ही, समिति ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुधिचुआ क्षेत्र के आस-पास रहने वाली 50 गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी वितरण भी किया।

जनसम्पर्क अधिकारी